

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 1973/आश्विन 2, 1895  
No. 223] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 1973/ASVINA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**MINISTRY OF COMMERCE**

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE

*New Delhi, the 24th September 1973*

**SUBJECT.**—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973—March 1974 (Amendment No. 42).*

**No. 157-ITC(PN)/73.**—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Volume II) for the period April 1973—March 1974 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. ITC(PN)/73 dated the 2nd April, 1973.

2. The following amendments may be made at appropriate places indicated below:—

| Page No. of<br>Red Book<br>(Vol. II) | Reference        | Amendments                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103                                  | B.36 I<br>Col. 4 | After the existing entry (d), the following new entry may be inserted :—<br>“(e) Potassium Chlorate (25%)” |

S. G. BOSE MULLICK,  
Chief Controller of Imports & Exports.

## वाणिज्य मंत्रालय

## सार्वजनिक सूचना

## आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1973

विषय : अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 42)

सं 157—आई० डी० सी० (पी० एन०)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 46—आईटीसी (पी एन)/73, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक—वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

| रेड बुक (वा० 2)<br>की पृष्ठ संख्या | संदर्भ                        | संशोधन                                    |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 103. बी० 36.1                      | वर्तमान प्रविष्टि (डी) के बाद | निम्नलिखित नई प्रविष्टि निविष्ट की जाए :— |
| कालम 4                             |                               | “(ई) पोटैसियम क्लोरेट (25 प्रतिशत)”       |

एस० जी० बीस मल्लिक,  
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।